



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 30.09.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना तिकुनिया व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा 01 अभियुक्त को 240 ग्राम अवैध नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के साथ किया गया गिरफ्तार



श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 30/09/2020 को कोतवाली तिकुनियाँ पुलिस टीम द्वारा दौराने गस्त/क्षेत्र भ्रमण एक नफर अभियुक्त गुरचरन उर्फ चन्नू पुत्र गुरमुख उम करीब 35 वर्ष निवासी कस्बा तिकुनियाँ थाना तिकोनियां जनपद खीरी को 240 ग्राम अवैध नशीला पाउडर अल्प्राजोलम के साथ दारा बोड़ी गुरुद्वारा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 231/020 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त गुरचरन उर्फ चन्नूउपरोक्त को न्यायिक अभिरक्षा में सदर खीरी भेजा गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.गुरचरन उर्फ चन्नू पुत्र गुरमुख उम करीब 35 वर्ष निवासी कस्बा तिकुनियाँ थाना तिकोनियां जनपद खीरी।

गिरफ्तार करने वाली टीम–

- | | | |
|--------------------------|---|-------------------------------|
| 1. प्र०नि० हनुमान प्रसाद | - | कोतवाली तिकुनियाँ जनपद खीरी । |
| 2. का० रिकू पाल | - | कोतवाली तिकुनियाँ जनपद खीरी । |
| 3. का० आशीष कुमार- | | कोतवाली तिकुनियाँ जनपद खीरी । |
| 4. का० जितेन्द्र वर्मा- | | कोतवाली तिकुनियाँ जनपद खीरी । |
| 5. का० राजकुमार (चालक) | - | कोतवाली तिकुनियाँ जनपद खीरी । |
| 6. उ०नि० अलागु रावल | - | SSB कैंप खकरौला । |
| 7. ASI बहादुर सिंह | - | SSB कैंप खकरौला । |
| 8. HC रोबिन सिंह | - | SSB कैंप खकरौला । |
| 9. का० संजय कुमार | - | SSB कैंप खकरौला । |

थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा चोरी किए गए रूपयों सहित 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों 1. जियायुद्दीन पुत्र रज्जन उर्फ वहजुद्दीन उम्र 20 वर्ष नि० गजियापुर थाना निघासन खीरी 02. नजर मुहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 21 वर्ष नि० गजियापुर थाना निघासन खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से थाना स्थानीय के मु०अ०सं० 230/20 धारा 380 भादवि० व 214/20 धारा 457/20 धारा 457/380 भादवि० से संबंधित चोरी किए हुए कुल 14000/- रू० बरामद किए गए। गिरफ्तार अभियुक्तों को अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा० न्या० भेजा गया है।

अभियुक्तगणों का विवरण –

1. जियायुद्दीन पुत्र रज्जन उर्फ वहजुद्दीन उम्र 20 वर्ष निवासी गजियापुर थाना निघासन जन० खीरी।
2. नजर मोहम्मद पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 21 वर्ष निवासी गजियापुर थाना निघासन जन० खीरी ।

बरामदगी –

14000 रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ०नि० महताब सिंह- कोतवाली तिकुनियाँ जपनद खीरी ।
2. उ०नि० योगेश तेवतिया

3. का० अंशु राघव
4. का० पंकज निर्मल
5. का० प्रशान्त तेवतिया

थाना पलिया पुलिस द्वारा अभियुक्त अयूब पुत्र हसन रजा को 100 ग्राम डोडा पाउडर के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना पलिया पुलिस द्वारा अभियुक्त अयूब पुत्र हसन रजा नि० ग्राम त्रलोकपुर थाना पलिया खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा० न्यायालय भेजा गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु०अ०सं० 537/20 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 700 ग्राम गांजा सहित 02 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी व क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान में आज दिनांक 30.09.2020 को कोतवाली सदर जनपद खीरी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभि० राजबहादुर राठौर पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद नि० पटेल नगर बरखरेवा थाना को० सदर जिला खीरी को ग्राम देउवापुर मोड पालीटेक्निक सलेमपुर कोन से मय 300 ग्राम अवैध गांजे के साथ व अभि० लवकुश वर्मा पुत्र स्व० पुरुषोत्तम वर्मा नि० कनौजिया कालोनी थाना कोतवाली सदर जिला खीरी को ग्राम खखरा चौराहे के पास नहर पटरी से मय 400 ग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार करने मे सफलता प्राप्त की गयी। उक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर मु०अ०सं० 1090/2020 व 1091/20 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट बनाम उपरोक्त अभियोग पंजीकृत अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों का विवरण:-

- 1.राजबहादुर राठौर पुत्र स्व० चन्द्रिका प्रसाद नि० पटेल नगर बरखरेवा थाना को० सदर जिला खीरी
- 2.लवकुश वर्मा पुत्र स्व० पुरुषोत्तम वर्मा नि० कनौजिया कालोनी थाना कोतवाली सदर जिला खीरी

बरामदगी का विवरण:-

- 1.अभि० राजबहादुर राठौर उपरोक्त से 300 ग्राम गांजा ।
- 2.अभि० लवकुश वर्मा उपरोक्त से 400 ग्राम गांजा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

प्रथम टीम:-

- 1.उ०नि० जय प्रकाश यादव चौकी प्रभारी जेलगेट थाना कोतवाली सदर खीरी ।
- 2.का० मनीष यादव थाना कोतवाली सदर जिला खीरी ।
- 3.का० हेमन्त सिंह थाना कोतवाली सदर जिला खीरी ।

द्वितीय टीम:-

- 1.उ०नि० दीपक कुमार राठौर चौकी प्रभारी एलआरपी थाना कोतवाली सदर खीरी ।
- 2.का० नीरज तिवारी थाना कोतवाली सदर खीरी ।
- 3.का० विजय कुमार शर्मा थाना कोतवाली सदर खीरी ।
- 4.का० कौशलेन्द्र मिश्रा थाना कोतवाली सदर खीरी ।

थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा अभियुक्त सर्वेश कुमार गुप्ता उर्फ बबलू पुत्र राजाराम को सट्टा लगाते हुए किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध समाज विरोधी क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त सर्वेश कुमार गुप्ता उर्फ बबलू पुत्र राजाराम नि0 गोविन्द नगर थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 1265/- रू0 नकद, 01 अदद मोबाइल, 01 अदद सट्टा डायरी, 02 अदद सट्टा पर्ची, 01 अदद कैलकुलेटर व 01 अदद पेन बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 1087/20 धारा 13 जुआ अधि0 व 66 आईटीएक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना खीरी पुलिस द्वारा अभियुक्त रईस अहमद पुत्र सफी अहमद को सट्टा लगाते हुए किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध समाज विरोधी क्रिया-कलापों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खीरी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त रईस अहमद पुत्र सफी अहमद नि0 मोहल्ला सय्यद बाढा थाना व जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 740/- रू0 नकद, 01 अदद सट्टा पर्ची, 01 अदद पेन व गत्ता बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 524/20 धारा 13 जुआ अधि0 व 66 आईटीएक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना गोला पुलिस द्वारा अभियुक्त मन्ना उर्फ इरशाद को अवैध शस्त्र के साथ किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में सम्पूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व अवैध शस्त्रों के निर्माण बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना गोला पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त मन्ना उर्फ इरशाद पुत्र मनिउल्ला नि0 गुणवारा फार्म थाना गोला खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 614 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है-

1. थाना तिकुनिया पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 153/20 धारा 363/366 भादवि0 व 7/8 पाँक्सो एक्ट व 3(2)v एससीएसटी एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त हनीफ पुत्र पप्पू नि0 इन्द्रानगर पार्ट नं0 01 कस्बा व थाना पूरनपुर जनपद पीलीभीत को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।
2. थाना कोतवाली सदर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 3019/14 धारा 60(2) आब0 अधि0 के वारण्टी अभियुक्त अवधेश पुत्र लल्लू गौतम नि0 लाहौरी नगर थाना कोतवाली सदर खीरी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही हेतु मा0 न्या0 भेजा गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 70 लीटर अवैध कच्ची शराब तथा 01 शराब भट्टी बरामद कर 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र0 सं0	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1	थाना फरधान	25 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
2	थाना सम्पूर्णनगर	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3	थाना मोहम्मदी	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
3	थाना धौरहरा	30 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल	70 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार